

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(.असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2015—आश्विन 29, शक 1937

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2015

संशोधन

क्र. 22592-वि.स.-स्था.-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2012 में संशोधन किये जाने हेतु विधान सभा द्वारा प्रेषित प्रारूप क्रमांक 21766-वि.स.-स्था.-15 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्र. 410, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015, के पृष्ठ क्र. 819 के पद क्र. 2 में “नगद/स्टाम्प/भारतीय पोस्टल आर्डर” के स्थान पर “नगद/स्टाम्प/भारतीय पोस्ट ऑर्डर” मुद्रित हो गया है.

उपरोक्तानुसार संशोधन “भारतीय पोस्ट आर्डर” के स्थान पर “भारतीय पोस्टल आर्डर” पढ़ा जावे.

रमेश महाजन
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.